

किरण बाला



# मछलियों का सौंचक संसार

**म**छलियों का संसार बड़ा विचित्र और रोमांचक है। इहें जल की रानी या जलपरी कहा गया है। पानी में ही जन्म लेने, पलने और विचरण करने वाली इन मछलियों की अनंत किस्में हैं। आइए, ऐसी ही कुछ अजब अनोखी मछलियों से आपका परिचय कराएं -

- झींगा मछली के रक्त का रंग लाल के वजाय काला होता है।
- कट्टफिश नामक मछली के रक्त का रंग नीला होता है। इसके एक नहीं तीन हृदय होते हैं। स्टोन फिश नामक मछली इतनी जहरीली होती है कि उसके छूने भर से इंसान की मौत हो सकती है।
- गम्भुशिया मछली मलेरिया के मच्छरों का नाश करती है।
- ट्रीगर नामक मछली की पीठ के अंदर नुकीला कांटा होता है। जब उसे खतरा दिखाई देता है, वह उस कांटे को ऊपर कर लेती है और खतरा टलते ही उसे भीतर कर लेती है।
- सर्जन नछली की पूँछ पर तीखी धार वाले नश्तर पाए जाते हैं। इसमें रंग बदलने के अद्भुत गुण है।
- सोलोमन नामक मछली सीढ़ियां भी छढ़ सकती है।
- चाउपिन नामक मछली जब तैरती

है तो घंटी जैसी आवाज करती है।

- तारपीडा नामक मछली करंट पैदा करती है।
- फाइजेटेक्स नामक मछली जब तैरती है तो ऐसा लगता है कि टार्च जलाकर तैर रही है।
- स्टार मछली लड़ाकू होती है। लड़ाई में एक भुजा टूट जाने पर नई भुजा उत्पन्न हो जाती है।
- वोफिन फिश अंडे देने के बाद उन्हें खाने का प्रयत्न करती है। इस बात पर नर और मादा में लड़ाई होती है। यदि नर जीतता है तो वह उसे मादा को खाने नहीं देता और स्वयं उनकी देखभाल करता है।
- मिलिया बिड्डा नामक मछली अंडे के बजाय बच्चे पैदा करती है।
- मिसिसिपी नदी की धारी में एक विचित्र क्रिस्प की मछली पाई जाती है जो कुत्तों के समान भौंकती है।
- व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली है जो 12 मीटर लंबी और 15 टन भारी हो सकती है।
- विशालकाय सफेद शार्क मछली आदमखोर होती है।
- प्ला बक नामक मछली अपना सारा जीवन खारे या मीठे पानी में व्यतीत करती है।
- पायतट मछलियां राह भटकी हुई


मछलियों को रास्ता दिखाती हैं। राह दिखाने हेतु काफी दूर तक उनके साथ जाती हैं।

- ग्लासफिश का शरीर पारदर्शी होता है जिसकी वज्र से उसके शरीर के भीतरी अंग भी बाहर से दिखाई देते हैं। पारदर्शी होते हुए भी ये संग-बिरंगी होती है।
- मध्य हिन्द महासागर के चांगोस द्वीप समूह की बौनी पिगमी गोबी सबसे छोटी समुद्री मछली है जिसकी औसत लंबाई 8.6 मिलीमीटर है। समाओं की

बौनी गोबी का वजन मात्र 2 मिलीग्राम होता है।

- सेलफिश सबसे तेज़ चाल वाली मछली है जो कि 109 किलोमीटर प्रतिघण्टे की रफ्तार से तैर सकती है।
- उत्तरी अमेरिका की बड़ी झीलों में पाई जाने वाली स्टर्जन मछली 82 वर्ष तक जीवित रह सकती है। वेसेगिनस प्रोफांडिसिमस नामक दुर्लभ मछली 8 हजार मीटर की गहराई में भी पाई जाती है। महासागरों में पाई जाने वाली सनफिश नामक मछली एक बार में तीस करोड़ तक अंडे देती है।
- फ्लोरिडा की दूथ कार्प नामक मछली सबसे कम यानी 20 अंडे देती है।
- इलेक्ट्रिक इल नामक मछली 650 वोल्ट विद्युत करंट प्रवाहित कर सकती है।
- कटलफिश पर जब कोई शत्रु हमला करता है तो यह अपने थेले से स्थायी जैसा काले रंग का पदार्थ शत्रु की ओर छोड़ती है जो धुएं जैसे बादल पैदा करता है।

- लांगफिश नामक मछली गलफड़ों की बजाय फेफड़ों से सांस लेती है।
- प्लाइंग फिश हवा में उड़ती भी है। उड़ते समय इनके फिस्स फैल जाते हैं। उड़ने से पहले इसे हवाई जहाज की भाँति दौड़ना पड़ता है।
- इल नामक मछली को जमीन पर चलने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। ये अपनी त्वचा से सांस लेती है। यह जमीन पर भी जिंदा रह सकती हैं।
- एंगलर फिश नामक मछली प्रकाश पैदा करती है। इसके मुंह में प्रकाश पैदा करने वाले अंग होते हैं। अफ्रीका



विशालकाय सफेद सार्क



विभिन्न प्रजातियों की मछलियां

के तटीय क्षेत्रों में सिवेल्स द्वीपों पर अदृश्य हो जाने वाली मछलियां पाई जाती हैं। काले रंग की यह मछली दिखने में सामान्य मछलियों जैसी लगती है। लेकिन खतरा महसूस होते ही वे पारदर्शी होकर अदृश्य हो जाती हैं। वह एक घंटे तक अदृश्य रह सकती है।

- मडस्टिकपर नामक मछली जब कीचड़ से बाहर निकलती है तो इसकी पूँछ ही श्वसन का माध्यम बनती है। इसकी पूँछ में असंख्य रक्त कोशिकाएं होती हैं। कीचड़ में रहने वाली यह मछली जमीन पर भी रह सकती है तथा पेड़ों पर भी चढ़ सकती है।
- समुद्री धोड़ा एक विशित्र प्रकार की मछली है। जिसका सिर धोड़े के सिर से मिलता-जुलता है। इसका शरीर कड़ा और चिकना तथा पूँछ सांप जैसी होती है।

संपर्क करें:

किरण वाला

43/2 सुदामा नगर, राम टेकरी,  
मंदसौर, (मध्य प्रदेश) 458001



**प्रदूषित पानी हम सभी  
के जीवन को अत्यंत नुकसान  
पहुँचाते हैं। संपूर्ण बीमारियां प्रदूषित पानी  
के कारण होती हैं। प्रतिवर्ष 10 लाख  
बच्चे पानी के संक्रमण के  
कारण मरते हैं!**



NEERAD, cartoonist, Patna  
Ph. 0612 2250656, Mo. 09234877975  
E-mail: neeradcartoonist@rediffmail.com